

कार्यालय प्रधान महालेखाकार) लेखापरीक्षा (हरियाणा,  
प्लॉट न. 4-5, सैक्टर -33बी, दक्षिण मार्ग, चण्डीगढ़  
Office of the Principal Accountant General (Audit) Haryana, Plot No.4-5, Sector 33-B,  
Dakshin Marg, Chandigarh -160 020

U.O. No.: प्रशा-2/ले.प./सू.काअ.अधि.2005/2024-25/6-332/276 दिनांक :26.06.2024


विषय:- कार्यालय वेबसाइट पर सूचना अपग्रेड करने बाये

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मे सम्बंधित सूचना निम्नलिखित फोल्डरो के अंतर्गत इस कार्यालय मे सम्बंधित दिनांक 01.06.2024 तक की सूचना इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित की जा रही है :-

1. Staff strength as on 01.06.2024
2. Work distribution of its group officers as on 01.06.2024
3. Number of persons in each category along with scale pay of each category.
4. Budget as on 31.05.2024
5. Deputation Data as on 01.06.2024

As per the website policy of GoI, the disclaimer is to be added : "This website is being maintained for information purposes only. Even though every effort is taken to provide accurate and up to date information, the same should not be construed as a statement of law or used for any legal purposes."

यह पत्र वरि. उप महालेखाकार महोदया (प्रशासन) की अनुमति से भेजा जा रहा है।

  
वरि.लेखापरीक्षा अधिकारी ( प्रशासन -2)

सेवा में,

वरि. लेखा परीक्षा अधिकारी,  
कंप्यूटर सेल (स्थानीय)

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)  
HARYANA, PLOT NO – 5, DAKSHIN MARG,  
SECTOR – 33-B, CHANDIGARH – 160020.**

**PBX NO. 2602368, 2604289, 2607342 FAX Nos. 0172- 2610488, 2607732**

**1. INTRODUCTION:-**

Comptroller & Auditor General of India, being Head of the Indian Audit & Accounts Department derives his powers under Articles 149-151 of the Constitution of India as well as Comptroller & Auditor General's (Duties, Power & Conditions of Service) Act, 1971. Accountants General /Principal Accountant General is appointed in each of the States to look after the functions of the Accounts keeping and Auditing.

1(a) Functions of the Principal Accountant General (Audit) Haryana can be broadly classified as under:-

- (i) Audit of accounts of receipts and expenditure of the Government of Haryana, audit of Government Companies, Statutory Corporations, Boards and Autonomous Bodies covered under the Statutes and under the provisions of Duties and Powers of the C&AG of India Act, 1971 as amended from time to time.
- (ii) Comprehensive audit appraisal of the various Government Schemes/projects both State sponsored and Centrally sponsored and undertaking audit reviews of various Government Companies, Departmental Undertakings and Statutory Corporations of the State of Haryana.
- (iii) Assisting the Public Accounts Committee (PAC) and the Committee on Public Undertakings (COPU) of the Haryana State Legislature in the ir examination of different Audit Reports presented by the Comptroller and Auditor General of India in Vidhan Sabha.
- (iv) Auditing the Finance and Appropriation Accounts of the Government of Haryana prepared by the Accountant General (A&E) Haryana.

1(b) The charge of the office is held by **Sh. Shailendra Vikram Singh , Principal Accountant General.**

1(c) The Principal Accountant General is assisted for the discharge of above functions by a team of Deputy Accountants General/Sr. Dy. Accountants General (Group Officers) who are incharge of each functional wing in the office as under:-

- **AMG-I**
- **AMG-II**
- **AMG-III**
- **AMG-IV**
- **AMG-V**

**Details of cluster -wise grouping of Departments/Agencies/PSUs/ABs**

**AMG-I:**

Health and Welfare

Education, Skill Development and Employment

Environment, Science & Technology

**AMG-II**

Finance and Transport

Appropriation and FAC/FINAT

Faw/CASS

**AMG-III**

Rural Development

Agriculture, Food and allied Industries

Water Resources

Public Works

**AMG-IV**

Energy and Power

Industry and Commerce

Urban Development

IT and Communication

DA Group and Technical Support Cell

**AMG-V**

Law and order

Culture and Tourism

General Administration

Sr.DAG (AMG-V) also looks after office Administration.

**Office Administration and Welfare**

- (a) The functions of Administration wing comprising of complete cadre control of Group 'B', 'C' and MTS including all establishment matters, recruitment, training (In-house & Computer training), conducting examinations, promotions & placement of officers & staff in the office, preparation of budget estimates, disbursement of pay & allowances, settlement of other personal claims & maintenance of office in general.

- (b) In compliance with Supreme Court's order dated 31.10.2013, transfer & posting board has been constituted to bring the transparency in transfer & posting of officers and officials. Formation of board members & guidelines are attached separately.
- (c) Welfare wing of the office of the Principal Accountant General (Audit) Haryana comprising of Welfare Assistant and other staff, whose work is supervised by a Welfare Officer/Sr. AO Welfare. This wing looks after the general cleanliness of the office, deployment of all MTS, overall welfare of the staff and their families.

**Computer Cell**

The Computer Cell also imparts training to staff in various computer applications.

**Hindi Cell**

Hindi Cell of this office looks after the implementation processes of the official language policies of Government of India. It also takes care of the translation/training requirements of Hindi.

**1(m) Staff strength as on 01.06.2024**

	Sanctioned				Person in position				Total Vacancy	HIA	Net Vacancies
	Pt.	Ty.	Cl	Total	Pt.	Ty.	C.Ty.	Total			
Principal Accountant General	01	0	0	01	01	0	0	01	0	0	0
Group Officer	05	0	0	05	05	0	0	05	0	0	0
Welfare Officer	01	0	0	01	00	0	0	00	-1	0	-1
<b>Total</b>	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>07</b>	<b>06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>06</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>

**Group – A&B & NGE staff as on 01.06.2024**

	Sanctioned				Person in position				Total Vacancy	HIA	Net Vacancies
	Pt.	Ty.	C.Ty.	Total	Pt.	Ty.	C.Ty.	Total			
Sr. AO	97	0	2	99	69	0	2	71	-28	0	-28
Information System Manager Gr-1	1	0	0	1	0	0	0	0	-1	0	-1
Information System Manager Gr-1	2	0	0	2	0	0	0	0	-2	0	-2
AAO	20	0	0	205	194	0	0	194	-11	0	-11

	Sanctioned				Person in position				Total Vacancy	HIA	Net Vacancies
	Pt.	Ty.	C.Ty	Total	Pt.	Ty.	C.Ty.	Total			
	5										
AAO(interim)	0	49	0	49	0	41	0	41	-8		-8
Supervisor (Audit)	12	0	0	12	10	0	0	10	-2	0	-2
Assistant Supervisor	37	0	0	37	38	0	0	38	1	0	1
Sr. Con. Oper.	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
Audit Assistant Gr-1	2	0	0	2	0	0	0	0	-2	0	-2
DEO Gr. B	9	0	0	9	14	0	0	14	5	0	5
Audit Assistant Gr-II	4	0	0	4	0	0	0	0	-4	0	-4
Sr. Auditors	73	0	0	73	73	0	0	73	0	1	1
Auditors	121	0	0	121	100	0	0	100	-21	7	-14
D.E.O. Gr. A	21	0	0	21	15	0	0	15	-6	0	-6
Administrative Assistant	16	0	0	16	0	0	0	0	-16	0	-16
Clerks/ Typist	20	0	0	20	15	0	0	15	-5	0	-5
Sr.Pvt. Secy.	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0
Stenographer (Gr. I) (PA)	4	0	0	4	0	0	0	0	-4	0	-4
Stenographer (Gr. II) (stenos)	6	0	0	6	10	0	0	10	4	0	4
Hindi Officer	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
Sr. Hindi Translator	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0

	Sanctioned				Person in position				Total Vacancy	HIA	Net Vacancies
	Pt.	Ty.	C.Ty	Total	Pt.	Ty.	C.Ty.	Total			
Jr. Hindi Translator	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0
Welfare Asstt.	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Staff Car Dr.	1	0	0	1	0	0	0	0	-1	0	-1
Multi Tasking Staff	69	0	0	69	20	0	0	20	-49	2	-47
Canteen staff	12	01	0	13	4	0	0	4	-9	0	-9
<b>Total</b>	<b>71</b>	<b>51</b>	<b>2</b>	<b>355</b>	<b>569</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>613</b>	<b>-159</b>	<b>10</b>	<b>-149</b>

1(n) **The powers and duties/work distribution of its officers as on 01.06.2024 are as under:-**

Sr. No.	Name & Desig. S/Sh/Smt.	Telephone No.		Charge
		Office	PBX	
<b>Group 'A' officers</b>				
1.	<b>Shailendra Vikram Singh ,</b> Principal Accountant General	2660704	409	1. Head of the Department. 2. Direct charge of Report-I,II,III/PAC and IV/COPU, ITA sections and APMG and technical support cell.
2.	<b>Sumedha Amar,</b> Sr. DAG (Admin)	2610616	431	<b>A.M.G. V</b> Supervisory charge of Law and Order Culture and Tourism and General Administration; Office Administration, RTI act 2005 ,Entitlement, H.K,Hindi cell, Training cell, APAR cell and purchase regarding computer cell.

3.	<b>Sumit Kumar,</b> Sr. DAG	2615443	449	<b>A.M.G. II</b>  Finance and Transport, Appropriation and FAC/FINAT and FAW/CASS from 24.04.2023
4.	<b>Shweta Mishra,</b> DAG	2615378	455	<b>A.M.G. I</b>  Supervisory charge of Health and Welfare, Education, Skill Development & Employment, Environment, Science & Technology
5.	<b>Gutte Rohit Manikrao,</b> DAG	2660851	428	<b>A.M.G. III</b>  Supervisory charge of Rural Development, Agriculture, Food & Allied Industries, Water Resources and Public Works, Panchayati Raj Institution, Computer cell , Computer training cell.  Data Analytics Group from 29.04.2024  Supervision work of performance audit on Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna and IT audit of E-Procurement from 30.04.2024  Supervision work of performance audit on <b>MGNAREGA</b> from 06.05.2024
6.	<b>Arif Hussain Shaikh</b>  DAG	2612737	452	<b>AMG-IV</b>  Supervisory charge of Audit of Energy and Power, Industry and Commerce, Urban Development, IT and Communication.  <b>SSCA (Implementation of 15th Finance Commission in Rural Areas) from 29.04.2024</b>

**1(o) The procedure followed in its decision making process, including channels of supervision and accountability.**

The channel of submission & accountability are:-

- (i) Auditor/Sr. Auditor
- (ii) Asstt. Audit Officer/Supervisor
- (iii) Sr. Audit Officer
- (iv) Dy. Accountant General/Sr. Dy. Accountant General
- (v) Accountant General/Pr. Accountant General

**1(p) The norms set by it for discharge of its functions:-**

The department follows the norms in auditing Standards and Manuals in the discharge of its functions.

**The rules, regulations, instructions, manuals and records used by its employees for discharging its functions:-**

- (i) CCS (Conduct) Rules 1964
- (ii) CCS (CCA) Rules 1965
- (iii) CCS (Leave) Rules
- (iv) CCS (Pension) Rules
- (v) Manual of General Procedures & Admn.
- (vi) Manual of CRT
- (vii) Sales Tax Manual
- (viii) Manual of Inspection wing (Civil)
- (ix) Manual of Entertainment
- (x) Manual of Works Audit department
- (xi) Forest Audit Manual
- (xii) Manual of standing orders (Audit)

**A statement of categories of documents held by it or under its control:-**

The documents held by Department are those received from auditee organisations and Governments.

**Statement of committees consisting of two or more persons is given as under. Public participation or minutes of meetings of these committees are not open to public.**

1. Committee in the form of SC/ST Cell to ensure due compliance of Government reservation orders and for redressal of the grievances of SC/ST employees.

List of committee members:

- i. Sr. DAG (Admin) – Liaison Officer
- ii. Sr. Audit Officer (Admin-I) – Member
- iii. Assistant Audit Officer (Admin-I) - Member

2. Committee for redressal of the complaints regarding sexual harassment of working women employees in the office.

List of members of the committee:-

- I. Ms. Shweta Mishra , DAG
- II. Ms. Shareen Jacob, Advocate (NGO)
- III. Mr. Roshan Lal Sharma , Sr. Audit Officer (Welfare)
- IV. Mr. Guru Saroop Bansal, Sr. Audit Officer
- V. Ms. Kailash Kumari , Sr. Audit Officer



VI. Ms. Jyoti, Assistant Audit Officer

**Directory of officers and employees:-**

Directory of officers and employees is attached in the end of report.

**Number of persons in each category of officers and staff in the office as on 01.06.2024 along with scale of pay of each category are mentioned as under:-**

Sr. No.	Post	Persons-in-position as on 01.06.2024	Scale of Pay as per 7 <sup>th</sup> CPC
1.	Principal Accountant General	01	Pay matrix-15
2.	Sr. Dy. Accountant General	02	Pay matrix-12
3.	Dy. Accountant General	03	Pay matrix-11
4.	Welfare Officer	00	Pay matrix-11
5.	Sr. Audit Officer	71	Pay matrix-10 & 11
6.	Asstt. Audit Officer	235	Pay matrix-8 & 9
7.	Sr. Private Secretary	02	Pay matrix-8
8.	Private Secretary	00	Pay matrix-7
9.	Supervisor	10	Pay matrix-8
10.	Assistant Supervisor	38	Pay matrix-7
11.	Welfare Asstt.	01	Pay matrix-8
12.	Hindi Officer	01	Pay matrix-9
13.	Sr. Hindi Translator	01	Pay matrix-7
14.	Jr. Hindi Translator	02	Pay matrix-6
15.	Stenographers (Gr. I)	00	Pay matrix-6
16.	Stenographers (Gr. II)	10	Pay matrix-4
17.	Sr. Auditor	73	Pay matrix-6
18.	Auditor	100	Pay matrix-5
19.	Sr. Console Operator	01	Pay matrix-6
20.	Data Entry Operator Gr. B	14	Pay matrix-5
21.	Data Entry Operator Gr. A	15	Pay matrix-4

Sr. No.	Post	Persons-in-position as on 01.06.2024	Scale of Pay as per 7 <sup>th</sup> CPC
22.	Clerk	15	Pay matrix-2
23.	SGR Keeper	00	Pay matrix-2
24.	Staff Car Driver	00	Pay matrix-5
25.	Multi Tasking Staff	20	Pay matrix-1
26.	Manager Grade-II	00	Pay matrix-6
27.	Asstt. Manager-cum-Store Keeper	00	Pay matrix-4
28.	Canteen Clerk	02	Pay matrix-2
29.	Halwai-cum-Cook	01	Pay matrix-3
30.	Asstt. Halwai-cum-Cook	00	Pay matrix-2
31.	Canteen Attendant	01	Pay matrix-1
Total		0	

#### Gradation List as on 01/03/2023

Gradation list of officers and staff of the office as on 1<sup>st</sup> March of each year is prepared annually. This list is not to be treated as seniority list. Gradation list of the officers/officials working in this office as on 01/03/2023 is available on our website <https://cag.gov.in/ag/haryana/en/gradation-list>

#### Budget

Expenses on salary are the major component of the office budget and travel expenses constitute next higher component of the office budget.

Details of expenditure incurred during 2024-25 as on 31.05.2024 are given as under:-

Sr. No.	Head of Expenditure	Expenditure (Rs. in Lakh)
1.	Salary including allowances & wages	1643.35169
2.	Traveling ,Medical expenses & LTC	117.41899
3.	Office expenses , Special Contingencies, Outsourcing/Engagement of persons & Internet Charges (Broadband)	17.33686
4.	Rent , Rates and Taxes, Publications, Rent for others	0.02362

5.	Digital Equipment	0.00000
6.	Fuel & Lubricants, Advertising & Publicity	0.12500
7.	Minor Civil & Electric Work	0.00000
8.	Professional Services	0.00000
9.	Repair & Maintenance	0.00000
10.	GIA, Contribution & Other Revenue Expenditure	0.49015
11.	4059, 4216 Capital heads	0.00000
12.	4075- Machinery & Equipment and Information, computer, Telecommunications (ICT Equipment) Furniture & Fixture and Other Fixed Assets	0.00000
13.	Furniture & Fixtures and other fixed Assets	0.00000
	<b>Total</b>	<b>1778.75</b>

**Details of the information available:-**

All information is available on our website <https://cag.gov.in/ag/haryana/en>, either free and in some cases (Under RTI Act-2005) an application fee of rupees 10/- and Rs. 2/- per page for each pages created or copied payable in favour of "Pay and Accounts Officer, O/o the Principal Accountant General (Accounts & Entitlement) Punjab, Sector – 17, Chandigarh".

**Central Public Information Officer in the office:-**

**Ms. Sumedha Amar.**

Sr.Dy. Accountant General (Admn.)

Telephone No. 0172 – 2610616 (O)

Fax No.:- 0172-2610488

The First Appellate Authority is **Sh.Shailendra Vikram Singh** , Principal Accountant General (Audit) Haryana, telephone no. 0172-2660704, e-mail ID- [agauharyana@cag.gov.in](mailto:agauharyana@cag.gov.in)

**Normal Working Hours of this office:-**

09:00 AM to 05:30 PM (All working days except Saturday and Sunday)

**Public Dealing Hours:-**

Not applicable for Audit Office.

The notified Recruitment Rules of various post in IA&AD has been hosted in the C&AG website [www.cag.gov.in/content/disclosures](http://www.cag.gov.in/content/disclosures)

Work distribution list of Group A and B officers.

Office order regarding composition of complaint committee for redressal of complaints of sexual harassment of working women.

-  
11-

**Sr. Audit Officer(Admin)**



## वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ,ग्रुप 'क'द्व

क्र प सं	नाम व पदनाम	दूरभाष नंबर	प्रभार का बयौरा
----------------	-------------	-------------	-----------------

## प्रधान महालेखाकार का प्रभार स्वीकृत पद - (सिविल 5 : वाणिज्यिक 1)

1.	नवनीत कुमार, व.ले.प.अ.	2668471	406	रिपोर्ट-I (SFAR/ATIR, Report (Chapters-1 of Compliance Report, DPs related to Cluster- 4,5,6&10)
2.	गुरु सरूप बंसल, व.ले.प.अ.	-	-	PAC, Committee of ULBs & PRIs and Report-II
3.	दीपक अरोड़ा, व.ले.प.अ.(वा.)	2668471	469	रिपोर्ट-IV/COPU (COPU, DPs related to PSUs of all clusters, Preparation of Chapter 5 of SFAR)
4.	हरभजन सिंह, व.ले.प.अ.	-	-	Report-III

## (ख) सचिवालय का प्रभार स्वीकृत पद: 1(सिविल 1 : वाणिज्यिक 0)

1.	रेनू चावला, व.ले.प.अ.	2615377	404	सचिव, प्रधान महालेखाकार व आई.टी.ए.
----	--------------------------	---------	-----	--

## (ग) लेखापरीक्षा योजना प्रबंधन(APMG) का प्रभारस्वीकृत पद: 1(सिविल 1 : वाणिज्यिक 0)

1.	कैलाश कुमारी , व.ले.प.अ.	-	483	मुख्यालय
----	-----------------------------	---	-----	----------

## वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन) का प्रभार

## प्रशासन खंड स्वीकृत पद: 3 (सिविल 3 : वाणिज्यिक 0)

1.	रितु शर्मा, व.ले.प.अ.	2664299	434	प्रशासन-1/2
2.	वंदना शर्मा , व.ले.प.अ.(वा.)	2601832	607	हकदारी-1/2,3 व परीक्षा

3.	रोशन लाल शर्मा, व.ले.प.अ.	2601832	442	कल्याण अनुभाग , खेल-कूद व सांस्कृतिक क्लब तथा कार्यालय रख-रखाव का पर्यवेक्षी प्रभार ।  हाउसकीपिंग, रोकड़, कंप्यूटर तथा हिंदी/ आंतरिक प्रशिक्षण (सामान्य) का प्रभार
----	------------------------------	---------	-----	---

उप-महालेखाकार (सामाजिक खंड) AMG-I का प्रभार स्वीकृत पद - 16 (सिविल 15 :  
वाणिज्यिक 1)

1.	शीतल गोयल, व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
2.	सतीश कुमार, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
3.	रोशन सिंह, व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
4.	महेश कुमार, व.ले.प.अ.	-	-	मुख्यालय
5.	ओम प्रकाश , व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
6.	अशोक कुमार, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
7.	सतीश कुमार , व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
8.	रमेश कुमार , व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
9.	रेखा रानी , व.ले.प.अ.	-	-	मुख्यालय

उप-महालेखाकार (राजस्व खंड) AMG-II का प्रभार स्वीकृत पद - 13 (सिविल 12 :  
वाणिज्यिक 1)

1.	कमल अरोड़ा, व.ले.प.अ.	2601813	491	मुख्यालय
2.	अजय कपूर, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
3.	संजय अग्रवाल, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य

4.	भूपिंदर सिंह, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
5.	योगेन्द्र सिंह, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
6.	रमेश सैनी, व.ले.प.अ. (वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
7.	महावीर सिंह, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
8.	गुलशन राय, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
9.	धर्मवीर, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
(ख) वित्तीय लेखापरीक्षा विंग/केन्द्रीय लेखापरीक्षा समर्थन अनुभाग (FAW/Central Audit Support Section) का प्रभार				
स्वीकृत पद- 1 (सिविल 0 : वाणिज्यिक 0)				
1.	कमलेश वर्मा, व.ले.प.अ.	2663877	484	मुख्यालय
(ग) फिनेट का प्रभार (Appn. & FAC/ FINAT) स्वीकृत पद – 2 (सिविल 2 : वाणिज्यिक 0)				
1.	संजय कुमार, व.ले.प.अ.	2663873	484	विनियोजन व वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा टीम (Appn. & FAC/ FINAT)



उप-महालेखाकार (आर्थिक खंड-2) AMG-III का प्रभार  
वाणिज्यिक 3)

स्वीकृत पद - 16 (सिविल 13 :

1.	मोहिंदर सिंह, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
2.	विशाल कुमार बुद्धिराजा, व.ले.प.अ. (वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
3.	अभिषेक मेंहदीरता, व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
4.	रणधीर सिंह, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
5.	बलजीत सिंह, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
6.	मनोज कुमार, व.ले.प.अ.	-	-	मुख्यालय
7.	अमृत विश्वास कौर, व.ले.प.अ.	-	-	मुख्यालय
8.	रामपाल जोहल, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
9.	लवकेश, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
10.	संजय कुमार ढींगरा, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
11.	प्रोमिला देवी, व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य

वरिष्ठ उप-महालेखाकार (आर्थिक खंड-1) AMG-IV का प्रभारस्वीकृत पद:18 (सिविल 5 : वाणिज्यिक 13)

1.	श्वेता के. बैस, व.ले.प.अ.(वा.)	2660098	456	मुख्यालय
2.	शिवाली राणा, व.ले.प.अ.(वा.)	2660098	-	मुख्यालय
3.	नरेश कुमार, व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
4.	रितेश कुमार, व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
5.	राकेश कुमार, व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
6.	प्रवीण कुमार, व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य

7.	रेखा रानी व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
8.	विजय कुमार, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
9.	राजिंदर सिंह विर्क व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
10.	सतिंदर पाल सिंह व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
11.	राजीव कुमार, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
12.	निधि महाजन, व.ले.प.अ. (वा.)	-	-	मुख्यालय
13.	रोहित तलवार, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
14.	लक्ष्मी कान्त, व.ले.प.अ. (वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
15.	जुगल किशोर, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
) डाटा एनालिटिकल समूह (ख Data Analytical Group) (स्वीकृत पद : 1 सिविल 1 : वाणिज्यिक 0)				
1	-	-	413	-

उप-महालेखाकार (सामान्य खंड) AMG-V का प्रभार  
वाणिज्यिक 1)

स्वीकृत पद: 6 (सिविल 5 :

1.	मीतू, व.ले.प.अ.	2663877	483	मुख्यालय
2.	जसवंत कुमार, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
3.	दिनेश शर्मा, व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
4.	सुनीता बतरा, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
5.	नीतू अरोड़ा, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
6.	अनिल कुमार पराशर, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चंडीगढ़ का प्रभार

केंद्रीय उत्पाद एवं आयकर शाखा  
0)

स्वीकृत पद- 16 (सिविल 16 : वाणिज्यिक

1.	अमृत पाल कौर, व.ले.प.अ.	-	-	मुख्यालय
2.	कुलदीप कौशिक, व.ले.प.अ.	-	-	मुख्यालय
3.	मुनीष भाटिया, व.ले.प.अ.	-	-	मुख्यालय
4.	बलवंत सिंह, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
5.	विवेन्द्र मलिक, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
6.	संजीव कुमार, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
7.	अमित सिंह, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
8.	नरिंद्र कुमार, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
9.	जितेंदर कुमार शर्मा, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
10.	नरिंदर कुमार लंगू, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, प्रशासन



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, प्लॉट नंबर - 5,  
दक्षिण मार्ग,  
सेक्टर - 33-बी, चंडीगढ़ - 160020  
पीबीएक्स नं. 2602368, 2604289, 2607342 फैक्स नंबर 0172- 2610488,  
2607732

1. प्रस्तावना:-

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख होने के नाते भारत के संविधान के अनुच्छेद 149-151 के साथ-साथ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। प्रत्येक राज्य महालेखाकारों /प्रधान महालेखाकारों की नियुक्ति लेखाओं के बनाने और लेखापरीक्षा कार्यों हेतु की जाती है।

1(क) प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा के कार्यों का विस्तृत श्रेणीकरण इस प्रकार है:-

- (i) हरियाणा सरकार के प्राप्त लेखाओं और व्यय की लेखापरीक्षा, सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा, वैधानिक निगमों, बोर्डों और स्वायत्त निकाय भारत के नि.म.ले.प. अधिनियम, 1971 के तहत प्रदत्त कर्तव्यों और शक्तियों जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है।
- (ii) हरियाणा राज्य के विभिन्न उपक्रमों, विभागों सरकारी कंपनियों, वैधानिक निगमों की लेखापरीक्षा समीक्षा हरियाणा राज्य की विभिन्न सरकारी योजनाओं/परियोजनाओं राज्य प्रायोजित व् संघ सरकार से प्रायोजित का तुलनात्मक अध्ययन।
- (iii) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच में हरियाणा राज्य विधानमंडल की लोक लेखा समिति (पीएसी) और सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सहायता करना।
- (iv) महालेखाकार (ले. व्. हक) हरियाणा द्वारा तैयार किए गए हरियाणा सरकार के वित्त और विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा करना।

1(ख) कार्यालय का प्रभार श्री शैलेन्द्र विक्रम सिंह, प्रधान महालेखाकार के पास है।

1(ग) उपरोक्त कार्यों के निर्वहन के लिए वरिष्ठ उप महालेखाकार/ उप महालेखाकार(समूह अधिकारियों)जोकि इन कार्यों के परभारी हैं, की एक टीम महालेखाकार को सहायता प्रदान करती है जैसा नीचे दर्शाया गया है :-

- ए.एम.जी.-I
- ए.एम.जी.-II
- ए.एम.जी.-III
- ए.एम.जी.-IV
- ए.एम.जी.-V

1(घ) विभागों/एजेंसियों/पी.एस.यू./ए.बीज का क्षेत्रवार समूहीकरण का ब्यौरा :-

एएमजी-I:

स्वास्थ्य और कल्याण

शिक्षा, कौशल, विकास एवं रोजगार

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

एएमजी-II

वित्त एवं परिवहन

विनियोजन और FAC/फिनैट

फा/कास

एएमजी-III

ग्रामीण विकास

कृषि,खाद्य एवं संबद्ध उद्योग

जल संसाधन

लोक निर्माण

पंचायती राज संस्थानों(पी.आर.आई.)

#### एएमजी-IV

ऊर्जा और शक्ति

उद्योग एवं वाणिज्य

शहरी विकास

आई.टी. और संचार

शहरी स्थानीय निकाय(ULB)

डाटा एनालिटिक्स समूह और तकनीकी सहायता कक्ष

#### एएमजी-V

कार्यालय प्रशासन

कानून एवं व्यवस्था

संस्कृति और पर्यटन

सामान्य प्रशासन

### 1(ड) कार्यालय प्रशासन एवं कल्याण

- (क) प्रशासन विंग के कार्यों में ग्रुप 'बी', 'सी' और एमटीएस का संपूर्ण कैडर नियंत्रण शामिल है, जिसमें सभी स्थापना मामले, भर्ती, प्रशिक्षण (इन-हाउस और कंप्यूटर प्रशिक्षण), परीक्षा आयोजित करना, अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति और नियुक्ति शामिल है। कार्यालय, बजट अनुमान तैयार करना, वेतन और भत्ते का वितरण, अन्य व्यक्तिगत दावों का निपटान और सामान्य रूप से कार्यालय का रखरखाव।
- (ख) सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन में पारदर्शिता लाने के लिए स्थानांतरण एवं पदस्थापन बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के सदस्यों का गठन एवं दिशानिर्देश अलग से संलग्न हैं।
- (ग) प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा के कार्यालय की कल्याण शाखा में कल्याण सहायक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं, जिनके काम की देखरेख वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी कल्याण अनुभाग द्वारा की जाती है। यह विंग कार्यालय की सामान्य सफाई, सभी एमटीएस की तैनाती, कार्यालय की खेल एवं मनोरंजन गतिविधियाँ, कर्मचारियों और उनके परिवारों के समग्र कल्याण की देखभाल करता है।

### 1(ट) कंप्यूटर सेल

कंप्यूटर सेल विभिन्न कंप्यूटर अनुप्रयोगों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। इस कक्ष का सम्पूर्ण पर्यवेक्षण वरि. उप महालेखाकार (प्रशासन) के पास है।

### 1(ठ) हिंदी सेल

इस कार्यालय का हिंदी कक्ष भारत सरकार की राजभाषा नीतियों की कार्यान्वयन प्रक्रियाओं की देखभाल करता है। यह हिंदी के अनुवाद/प्रशिक्षण आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है।

1(द) 01.06.2024 को स्टाफ संख्या:-



पद का नाम	स्वीकृत पद				पदासीन				कुल रिक्तियां	प्रास्थगित	निवल रिक्तियां
	स्थायी	अस्थायी	नैमित्तिक अस्थायी	कुल	स्थायी	अस्थायी	नैमित्तिक अस्थायी	कुल			
प्रधान महालेखाकार	01	0	0	01	01	0	0	01	0	0	0
समूह अधिकारी	05	0	0	05	05	0	0	05	0	0	0
कल्याण अधिकारी	01	0	0	01	00	0	0	00	-1	0	-1
कुल	07	0	0	07	06	0	0	06	-1	0	-1

**01.06.2024 को Group – A & B & NGE स्टाफ संख्या :-**

पद का नाम	स्वीकृत पद				पदासीन				कुल रिक्तियां	प्रास्थगित	निवल रिक्तियां
	स्थायी	अस्थायी	नैमित्तिक अस्थायी	कुल	स्थायी	अस्थायी	नैमित्तिक अस्थायी	कुल			
व. लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल)	77	0	2	79	49	0	2	51	-28	0	-28
व. लेखापरीक्षा अधिकारी (कमर्शियल)	20	0	0	20	20	0	0	20	0	0	0
सूचना प्रणाली प्रबंधक ग्रेड-I	1	0	0	1	0	0	0	0	-1	0	-1

सूचना प्रणाली प्रबंधक ग्रेड-II	2	0	0	2	0	0	0	0	-2	0	-2
स. लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल)	164	0	0	164	153	0	0	153	-11	0	-11
स.लेखापरीक्षा अधिकारी (faculty)	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
स.लेखापरीक्षा अधिकारी (interim)	0	49	0	49	0	41	0	41	-8	0	-8
स.लेखापरीक्षा अधिकारी (कमर्शियल)	40	0	0	40	40	0	0	40	0	0	0
पर्यवेक्षक	12	0	0	12	10	0	0	10	-2	0	-2
स. पर्यवेक्षक	37	0	0	37	38	0	0	38	1	0	1
डाटा एंट्री ऑपरेटर( ग्रेड D)	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
लेखापरीक्षा सहायक ग्रेड-1	2	0	0	2	0	0	0	0	-2	0	-2
डाटा एंट्री ऑपरेटर( ग्रेड B)	9	0	0	9	14	0	0	14	5	0	5
लेखापरीक्षा सहायक ग्रेड-II	4	0	0	4	0	0	0	0	-4	0	-4
व. लेखापरीक्षक	73	0	0	73	73	0	0	73	0	1	1

लेखापरी क्षक	12 1	0	0	12 1	10 0	0	0	10 0	-21	7	-14
डाटा एंट्री ऑपरेटर( ग्रेड A)	21	0	0	21	15	0	0	15	-6	0	-6
प्रशासनि क सहायक	16	0	0	16	0	0	0	0	-16	0	-16
लिपिक	20	0	0	20	15	0	0	15	-5	0	-5
व. निजी सचिव	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0
स्टेनो ग्रेड 1	4	0	0	4	0	0	0	0	-4	0	-4
स्टेनो ग्रेड 2	6	0	0	6	10	0	0	10	4	0	4
हिंदी अधिकारी	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
व. हिंदी अनुवादक	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
कनिष्ठ अनुवादक	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0
कल्याण सहायक	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
स्टाफ कार चालक	1	0	0	1	0	0	0	0	-1	0	-1
मल्टी टास्किंग स्टाफ	69	0	0	69	20	0	0	20	-49	2	-47
प्रबंधक	1	0	0	1	0	0	0	0	-1	0	-1
सहायक प्रबंधक - सह- स्टोर कीपर	1	0	0	1	0	0	0	0	-1	0	-1
हलवाई- सह- कुक	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
कैंटीन क्लर्क	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0
सहायक हलवाई - सह-कुक	1	0	0	1	0	0	0	0	-1	0	-1
कैंटीन सहायक	6	1	0	7	1	0	0	1	-6	0	-6
कुल योग	71 9	5 1	2	77 2	56 9	42	2	61 3	-111	10	-101

कार्यालय महालेखाकार,लेखापरीक्षाद्ध हरियाणा,  
सैक्टर 33-बी,चण्डीगढ-16002

(पी.बी.एक्स. नंबर 2602368, 2604289, 2607342) फैक्स स. 0172 – 2610488  
दिनांक 01.06.2024 को भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारी तथा  
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल/ वाणिज्यिक) के कार्यभार आवंटन की  
स्थिति:-

क्र.सं	नाम व पदनाम सर्वश्री/ सुश्री	मोबाइल/ लैंडलाइन दूरभाष नंबर		प्रभार का बयौरा
		कार्यालय	पीबीएक्स	
प्रधान महालेखाकार, समूह अधिकारी व कल्याण अधिकारी				
1.	शैलेन्द्र विक्रम सिंह, प्रधान महालेखाकार	2660704	409	1. कार्यालय प्रमुखा 2. प्रतिवेदन-I,II,III/PAC तथा IV/COPU आई.टी.ए.,ए.पी.एम.जी. तथा तकनीकी सहायता सैल का प्रत्यक्ष प्रभार।
2.	सुमेधा अमर, व. उप- महालेखाकार	2610616	431	ए.एम.जी.-V के समूहबद्ध कानून एवं व्यवस्था, संस्कृति एवं पर्यटन, सामान्य प्रशासन कलस्टर के साथ कार्यालय प्रशासन के तहत सुचना का अधिकार-2005, प्रशासन,हकदारी,हिंदी सैल, एच.के., आंतरिक प्रशिक्षण , ए.पी.ए.आर. सैल एवं कंप्यूटर से सम्बंधित खरीद।
3.	सुमित कुमार व. उप- महालेखाकार	2615443	449	ए.एम.जी.-II के समूहबद्ध वित्त, परिवहन के कलस्टर का प्रभार , फिनेट (Appn. and FAC/FINAT) तथा फा/कास का प्रभार। राज्य वित्त पर कैग के वार्षिक प्रतिवेदन के समन्वय तथा प्रस्तुतिकरण से सम्बंधित

				कार्य।
4.	श्वेता मिश्रा उप-महालेखाकार	261537 8	45 5	ए.एम.जी.-I के समूहबद्ध सेहत व कल्याण शिक्षा, कौशल विकास व रोजगार, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्लस् टर का प्रभार।
5.	गुट्टे रोहित मानिकराव , उप- महालेखाकार	266085 1	42 8	ए.एम.जी.-III के समूहबद्ध ग्रामीण विकास, कृषि, खाद्य व संबद्ध उद्योग, जल संसाधन व लोक निर्माण, पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) के क्लस्टर , दिनांक 07.04.2024 से कंप्यूटर कक्ष, क्षेत्रीय कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का प्रभार। डेटा विश्लेषण समूह (DA Group) दिनांक 29.04.2024 से  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा (Performance Audit) और ई- प्रोक्योरमेंट (E-procurement) पर आईटी लेखापरीक्षा (IT Audit) का पर्यवेक्षण कार्य दिनांक 30.04.2024 से  मनरेगा(MGNAREGA) पर निष्पादन लेखापरीक्षा का पर्यवेक्षण कार्य दिनांक 06.05.2024 से
6.	आरिफ हुसैन शेख , उप-महालेखाकार	261273 7	45 2	ए.एम.जी.-IV के समूहबद्ध उर्जा व बिजली, उद्योग एवं कॉमर्स, शहरी विकास आई.टी. एवं संचार के क्लस्टर। SSCA(ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वे

				वित्त आयोग का कार्यान्वयन)दिनांक 29.04.2024 से
--	--	--	--	--

**1) इसकी निर्णयात्मक प्रक्रिया में प्रयुक्त ढंग, पर्यवेक्षण एवं लेखांकन के चनेलो सहित लेखांकन और प्रस्तुतिकरण के चैनल है :-**

- i. लेखा परीक्षक /वरिष्ठ. लेखा परीक्षक
- ii. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/पर्यवेक्षक
- iii. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
- iv. उप. महालेखाकार/वरि. उप. महालेखाकार
- v. प्रधान महालेखाकार

**1()) इसके निर्वहन हेतु इसके द्वारा जो मानक निर्धारित किये गये हैं :-**

विभाग अपने कार्यों के निर्वहन में लेखापरीक्षा मानकों और लेखापरीक्षा संहिता का अनुसरण करता है।

**इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, प्रस्ताव , निर्देश, संहिता और अभिलेख: -**

- (i) सी.सी.एस. (आचरण) नियम 1964
- (ii) सी.सी.एस. (आचरण) नियम 1965
- (iii) सी.सी.ए. (अवकाश) नियम
- (iv) सी.सी.ए. (पेंशन) नियम
- (v) प्रशासन एवं सामान्य कार्यविधि की संहिता ।
- (vi) सी.आर.टी. संहिता
- (vii) बिक्रीकर संहिता
- (viii) निरीक्षण विंग (सिविल)
- (ix) मनोरंजन संहिता
- (x) कार्य लेखापरीक्षा विभाग का संहिता
- (xi) वन लेखापरीक्षा संहिता

(xii) स्थायी आदेशसामान्य<sup>11</sup>-संहिता (लेखापरीक्षा)

(1) (थ) इसके द्वारा या इसके अंतर्गत रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण नियंत्रण:-

लेखापरीक्षा संगठन तथा सरकार से प्राप्त होने वाले अभिलेख विभाग द्वारा रखे जाते हैं।

(1) (द) दो या दो से अधिक व्यक्तियों वाली समितियों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है तथा समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त सबको न बताना ।

1. सरकारी आरक्षण आदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने और एससी/एसटी कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एससी/एसटी सेल के रूप में समिति।

समिति के सदस्यों की सूची:

- i. वरिष्ठ उप. महालेखाकार (प्रशासन) - संपर्क अधिकारी
- ii. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन-I) - सदस्य
- iii. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन-I) - सदस्य

2. कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु समिति।

समिति के सदस्यों की सूची:-

- I. सुश्री श्वेता मिश्रा, उप. महालेखाकार
- II. सुश्री शरीन जैकब, अधिवक्ता (एनजीओ)
- III. श्री रोशन लाल शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
- IV. श्री गुरु सरूप बंसल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
- V. सुश्री कैलाश कुमारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
- VI. सुश्री ज्योति, सहायक लेखा परीक्षक

1(त) अधिकारियों की निर्देशिका<sup>12</sup>-औरकर्मचारी:-

रिपोर्ट के अंत में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका संलग्न है।

01.06.2024 को कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक श्रेणी के वेतनमान के साथ निम्नानुसार उल्लिखित है: -

क्र.स.	पद	01.06.2024 को कार्यरत अधिकारी	7 वीं सीपीसी के अनुसार वेतनमान
1.	प्रधान महालेखाकार	01	वेतन मैट्रिक्स-15
2.	वरिष्ठ उप. महालेखाकार	02	वेतन मैट्रिक्स-12
3.	उप. महालेखाकार	03	वेतन मैट्रिक्स-11
4.	कल्याण अधिकारी	00	वेतन मैट्रिक्स-11
5.	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	71	वेतन मैट्रिक्स-10 एवं 11
6.	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	235	वेतन मैट्रिक्स-8 एवं 9
7.	वरिष्ठ निजी सचिव	02	वेतन मैट्रिक्स-8
8.	निजी सचिव	00	वेतन मैट्रिक्स-7
9.	पर्यवेक्षक	10	वेतन मैट्रिक्स-8
10.	सहायक पर्यवेक्षक	38	वेतन मैट्रिक्स-7
11.	कल्याण सहायक.	01	वेतन मैट्रिक्स-8
12.	हिन्दी अधिकारी	01	वेतन मैट्रिक्स-9
13.	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	01	वेतन मैट्रिक्स-7



क्र.स.	पद	01.06.202 4 को कार्यरत अधिकारी	7 वीं सीपीसी के अनुसार वेतनमान
14.	जूनियर हिंदी अनुवादक	02	वेतन मैट्रिक्स-6
15.	स्टेनो (ग्रेड I)	00	वेतन मैट्रिक्स-6
16.	स्टेनो (ग्रेड II)	10	वेतन मैट्रिक्स-4
17.	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	73	वेतन मैट्रिक्स-6
18.	लेखा परीक्षक	100	वेतन मैट्रिक्स-5
19.	व. कंसोल ऑपरेटर	01	वेतन मैट्रिक्स-6
20.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड. बी	14	वेतन मैट्रिक्स-5
21.	डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड. ए	15	वेतन मैट्रिक्स-4
22.	लिपिक	15	वेतन मैट्रिक्स-2
23.	स्टाफ कार चालक	00	वेतन मैट्रिक्स-5
24.	मल्टी टास्किंग स्टाफ	20	वेतन मैट्रिक्स-1
25.	प्रबंधक ग्रेड- II	00	वेतन मैट्रिक्स-6
26.	सहायक प्रबंधक-सह-स्टोर कीपर	00	वेतन मैट्रिक्स-4
27.	कैंटीन क्लर्क	02	वेतन मैट्रिक्स-2
28.	हलवाई-सह-कुक	01	वेतन मैट्रिक्स-3
29.	सहायक हलवाई-सह-कुक	00	वेतन मैट्रिक्स-2
30.	कैंटीन अटेंडेंट	01	वेतन मैट्रिक्स-1
कुल		0	

01/03/2023 को पदक्रम सूची

प्रत्येक वर्ष 1<sup>4</sup>-मार्च को कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदक्रम सूची प्रतिवर्ष तैयार की जाती है। इस सूची को वरिष्ठता सूची नहीं माना जाएगा। इस कार्यालय में 01/03/2023 तक कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की पदक्रम सूची हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।  
<https://cag.gov.in/ag/haryana/en/gradation-list>

## बजट

वेतन पर व्यय कार्यालय बजट का प्रमुख घटक है और यात्रा व्यय कार्यालय बजट का अगला उच्च घटक है।

31.05.2024 को 2024-25 के व्यय का विवरण निम्नानुसार दिए गए हैं:-

क्रमांक।	व्यय प्रमुख	व्यय (लाख रुपये में)
1.	भत्ते और मजदूरी सहित वेतन	1643.35169
2.	यात्रा, चिकित्सा व्यय और एलटीसी	117.41899
3.	कार्यालय व्यय, विशेष आकस्मिकताएं, आउटसोर्सिंग/व्यक्तियों की नियुक्ति और इंटरनेट शुल्क (ब्रॉडबैंड)	17.33686
4.	किराया, दरें और कर, प्रकाशन, दूसरों के लिए किराया	0.02362
5.	डिजिटल उपकरण	0.00000
6.	ईंधन एवं स्नेहक, विज्ञापन एवं प्रचार	0.12500
7.	लघु सिविल एवं विद्युत कार्य	0.00000
8.	पेशेवर सेवाएं	0.00000
9.	मरम्मत एवं रखरखाव	0.00000
10.	जीआईए, सहायक अनुदान, अंशदान एवं अन्य राजस्व व्यय	0.49015
11.	4059, 4216 पूंजी शीर्ष	0.00000
12.	4075- मशीनरी और उपकरण और सूचना, कंप्यूटर,	0.00000

	दूरसंचार (आईसीटी उपकरण) फर्निचर और स्थिरता और अन्य अचल संपत्तियां	
13.	फर्निचर और फिक्स्चर और अन्य अचल संपत्तियाँ	0.00000
	<b>कुल</b>	<b>1778.75</b>

### 1(ब) उपलब्ध जानकारी का विवरण:-

हमारी वेबसाइट <https://cag.gov.in/ag/haryana/en> पर उपलब्ध सभी जानकारी या तो निशुल्क है और कुछ मामलों में (सूचना का अधिकार अधिनियम-2005) के तहत आवेदन शुल्क 10/- रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 2/- प्रति पृष्ठ "वेतन और लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) पंजाब, सेक्टर - 17, चंडीगढ़" के पक्ष में देय होगा।

### 1(भ) कार्यालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी:-

**सुश्री सुमेधा अमर ।**

वरिष्ठ उप. महालेखाकार (प्रशासन)

टेलीफोन नंबर 0172 – 2610616 (O)

फैक्सनंबर:- 0172-2610488

**प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैश्री शैलेन्द्र विक्रम सिंह, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, टेलीफोन नं. 0172-2660704, E-mail ID- [agauharyana@cag.gov.in](mailto:agauharyana@cag.gov.in)**

### 1(म) कार्यालय कार्य घंटे:-

09:00 पूर्वाह्न से सायं 05:30 बजे तक (शनिवार और रविवार को छोड़कर सभी कार्य दिवस)

### 1(य) जनता से मिलने का समय :-

लेखापरीक्षा कार्यालय के लिए लागू नहीं.

-  
**1(र)** भारत के लेखा एवं<sup>16-</sup>लेखापरीक्षा विभाग में विभिन्न पदों के लिए अधिसूचित भर्ती नियम C&AG वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं [www.cag.gov.in/content/disclosures](http://www.cag.gov.in/content/disclosures)

**1(ल)** ग्रुप ए एवं बी अधिकारियों की कार्य वितरण सूची।

1(व) कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण हेतु शिकायत समिति के गठन के संबंध में कार्यालय आदेश।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)**



## वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ,ग्रुप 'क'द्व

क्र प सं	नाम व पदनाम	दूरभाष नंबर	प्रभार का बयौरा
----------------	-------------	-------------	-----------------

## प्रधान महालेखाकार का प्रभार स्वीकृत पद - (सिविल 5 : वाणिज्यिक 1)

1.	नवनीत कुमार, व.ले.प.अ.	2668471	406	<b>रिपोर्ट-I</b> (SFAR/ATIR, Report (Chapters-1 of Compliance Report, DPs related to Cluster- 4,5,6&10)
2.	गुरु सरूप बंसल, व.ले.प.अ.	-	-	PAC, Committee of ULBs & PRIs and Report-II
3.	दीपक अरोड़ा, व.ले.प.अ.(वा.)	2668471	469	<b>रिपोर्ट-IV/COPU</b> (COPU, DPs related to PSUs of all clusters, Preparation of Chapter 5 of SFAR)
4.	हरभजन सिंह, व.ले.प.अ.	-	-	<b>Report-III</b>

## (ख) सचिवालय का प्रभार स्वीकृत पद: 1(सिविल 1 : वाणिज्यिक 0)

1.	रेनू चावला, व.ले.प.अ.	2615377	404	सचिव, प्रधान महालेखाकार व आई.टी.ए.
----	--------------------------	---------	-----	--

## (ग) लेखापरीक्षा योजना प्रबंधन(APMG) का प्रभारस्वीकृत पद: 1(सिविल 1 : वाणिज्यिक 0)

1.	कैलाश कुमारी , व.ले.प.अ.	-	483	मुख्यालय
----	-----------------------------	---	-----	----------

## वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन) का प्रभार

## प्रशासन खंड स्वीकृत पद: 3 (सिविल 3 : वाणिज्यिक 0)

1.	रितु शर्मा, व.ले.प.अ.	2664299	434	प्रशासन-1/2
----	-----------------------	---------	-----	-------------

2.	वंदना शर्मा , व.ले.प.अ.(वा.)	2601832	607	हकदारी-1/2,3 व परीक्षा
3.	रोशन लाल शर्मा, व.ले.प.अ.	2601832	442	कल्याण अनुभाग , खेल-कूद व सांस्कृतिक क्लब तथा कार्यालय रख- रखाव का पर्यवेक्षी प्रभार   हाउसकीपिंग, रोकड़, कंप्यूटर तथा हिंदी/ आंतरिक प्रशिक्षण (सामान्य) का प्रभार

उप-महालेखाकार (सामाजिक खंड) AMG-I का प्रभार  
15 : वाणिज्यिक 1)

स्वीकृत पद - 16 (सिविल

1.	शीतल गोयल, व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
2.	सतीश कुमार, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
3.	रोशन सिंह, व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
4.	महेश कुमार, व.ले.प.अ.	-	-	मुख्यालय
5.	ओम प्रकाश , व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
6.	अशोक कुमार, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
7.	सतीश कुमार , व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
8.	रमेश कुमार , व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
9.	रेखा रानी , व.ले.प.अ.	-	-	मुख्यालय

उप-महालेखाकार (राजस्व खंड) AMG-II का प्रभार  
वाणिज्यिक 1)

स्वीकृत पद - 13 (सिविल 12 :

1.	कमल अरोड़ा, व.ले.प.अ.	2601813	491	मुख्यालय
2.	अजय कपूर, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
3.	संजय अग्रवाल, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
4.	भूपिंदर सिंह, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
5.	योगेन्द्र सिंह, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
6.	रमेश सैनी, व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
7.	महावीर सिंह , व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
8.	गुलशन राय , व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
9.	धर्मवीर , व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
(ख) वित्तीय लेखापरीक्षा विंग/केन्द्रीय लेखापरीक्षा समर्थन अनुभाग (FAW/Central Audit Support Section) का प्रभार				
स्वीकृत पद- 1 (सिविल 0 : वाणिज्यिक 0)				
1.	कमलेश वर्मा, व.ले.प.अ.	2663877	484	मुख्यालय
(ग) फिनेट का प्रभार (Appn. & FAC/ FINAT) स्वीकृत पद - 2 (सिविल 2 : वाणिज्यिक 0)				
1.	संजय कुमार, व.ले.प.अ.	2663873	484	विनियोजन व वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा टीम (Appn. & FAC/ FINAT)



**उप-महालेखाकार (आर्थिक खंड-2) AMG-III का प्रभार स्वीकृत पद - 16 (सिविल 13 : वाणिज्यिक 3)**

1.	मोहिंदर सिंह, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
2.	विशाल कुमार बुद्धिराजा, व.ले.प.अ. (वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
3.	अभिषेक मेंहदीरत् ता, व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
4.	रणधीर सिंह, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
5.	बलजीत सिंह, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
6.	मनोज कुमार, व.ले.प.अ.	-	-	मुख्यालय
7.	अमृत विश्वास कौर, व.ले.प.अ.	-	-	मुख्यालय
8.	रामपाल जोहल, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
9.	लवकेश, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
10.	संजय कुमार ढींगरा, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
11.	प्रोमिला देवी, व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य

**वरिष्ठ उप-महालेखाकार (आर्थिक खंड-1) AMG-IV का प्रभारस्वीकृत पद:18 (सिविल 5 : वाणिज्यिक 13)**

1.	श्वेता के. बैंस, व.ले.प.अ.(वा.)	2660098	456	मुख्यालय
2.	शिवाली राणा, व.ले.प.अ.(वा.)	2660098	-	मुख्यालय
3.	नरेश कुमार, व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य

4.	रितेश कुमार, व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
5.	राकेश कुमार, व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
6.	प्रवीण कुमार, व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
7.	रेखा रानी , व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
8.	विजय कुमार, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
9.	राजिंदर सिंह विक व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
10.	सतिंदर पाल सिंह व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
11.	राजीव कुमार , व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
12.	निधि महाजन, व.ले.प.अ. (वा.)	-	-	मुख्यालय
13.	रोहित तलवार, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
14.	लक्ष्मी कान्त , व.ले.प.अ. (वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
15.	जुगल किशोर , व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
) डाटा एनालिटिकल समूह (ख Data Analytical Group) (स्वीकृत पद : 1 सिविल 1 : वाणिज्यिक 0)				
1	-	-	413	-

उप-महालेखाकार (सामान्य खंड) AMG-V का प्रभार  
वाणिज्यिक 1)

स्वीकृत पद: 6 (सिविल 5 :

1.	मीतू, व.ले.प.अ.	2663877	483	मुख्यालय
----	-----------------	---------	-----	----------

2.	जसवंत कुमार , व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
3.	दिनेश शर्मा, व.ले.प.अ.(वा.)	-	-	निरिक्षण कार्य
4.	सुनीता बतरा, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
5.	नीतू अरोड़ा, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
6.	अनिल कुमार पराशर , व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य

महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चंडीगढ़ का प्रभार

केंद्रीय उत्पाद एवं आयकर शाखा  
0)

स्वीकृत पद- 16 (सिविल 16 : वाणिज्यिक

1.	अमृत पाल कौर, व.ले.प.अ.	-	-	मुख्यालय
2.	कुलदीप कौशिक, व.ले.प.अ.	-	-	मुख्यालय
3.	मुनीष भाटिया , व.ले.प.अ.	-	-	मुख्यालय
4.	बलवंत सिंह, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
5.	विरेन्द्र मलिक, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
6.	संजीव कुमार, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
7.	अमित सिंह, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
8.	नरिंद्र कुमार, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
9.	जितेंदर कुमार शर्मा, व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य

10.	नरिंदर कुमार लंगू व.ले.प.अ.	-	-	निरिक्षण कार्य
-----	--------------------------------	---	---	----------------

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ,प्रशासन



## मई माह की देय रिपोर्ट:-

1. प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारी/कर्मचारी जैसा की पिछले माह की प्रथम तारीख को था-13
2. मई माह में वृद्धि- -00
3. कुल- -13
4. माह के दौरान वापस आए/स्थाई तौर पर अवशोषित या सेवानिवृत्ति हुए- -00
5. शेष- -13
6. ऐसे केस जिनकी कार्यालय वृद्धि की आवश्यकता है- -00

वरि. उप-महालेखाकार (प्रशा-1)  
हरियाणा चंडीगढ़  
Sr DAG (A) Sectt  
Haryana, Chandigarh  
संख्या/No.....11-6-24  
दिनांक/Date.....11/06/24

वरि. उप-महालेखाकार (प्रशा-1)

पदनाम	नाम सर्वश्री/सुश्री	कार्यालय, जहां पर प्रतिनियुक्त है	प्रतिनियुक्ति पर जाने की तिथि	प्रतिनियुक्ति की अवधि.
व.ले.प. अ. (01)	1. अनिल कुमार पिलानी	मुख्यालय	06.09.2010	31.08.2024
स.ले.प. अ. (06)	1. भूपेन्द्र कुमार 2. विजय शंकर पाठक 3. अजय कुमार 4. अनिल कुमार यादव 5. बृज पाल 6. जितेन्द्र कुमार	मुख्यालय मुख्यालय क्षे.प्र.संस्थान, प्रयागराज प्र.म.ले.(सा.एवं सा.क्षे., ले.प.)प्रयाग. मुख्यालय महानिदेशक (केन्द्रीय व्यय) नई दिल्ली	17.06.2011 09.06.2017 12.10.2018 26.04.2019 01.12.2021 08.06.2023	31.12.2024 31.12.2024 30.06.2024 25.04.2025 31.12.2024 08.06.2026
व.ले.प. (03)	1. राजेश कुमार मीणा 2. नितिन गोस्वामी 3. नीरज कुमार मीणा	आई.सी.ई.डी. जयपुर प्र.म.ले. (ले.प.) पंजाब प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर	15.07.2016 10.03.2022 14.07.2023	25.07.2024 10.03.2024 13.07.2024
ले.प. (01)	1.मोंटेक सिंह चावला	कार्या महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) नई दिल्ली	21.07.2023	20.07.2024
व.नि.स. / नि.स. (01)	1.टीपक कुमार	मुख्यालय	30.12.2014	31.12.2024
आशुलि पिक (01)	1.शुभम वर्मा	प्र.म.ले. (ले.प.-1) प्रयागराज	12.02.2021	13.02.2025